



“सर्व शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः”

नववर्ष 2019 के आगमन पर साधकों के लिए शुभ सन्देश

नववर्ष आगमन की पावन बेला पर आप सब का स्वागत है ! हम भाग्यशाली हैं जो ऐसे पावन समय का अभिनन्दन राम नाम के गुणगान से कर रहे हैं ! नववर्ष आप सब के लिए ढेरों खुशियां, प्यार, सुख-समृद्धि लेकर आये सब के जीवन में राम नाम का प्रकाश हो ! सेवा सिमरण और परोपकार जीवन के मुख्य अंग बनें ! हम सब को परम पिता श्री राम एवं सद्गुरु देव का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे !

इस नववर्ष के लिए स्वसंस्कार का संकल्प लेना है ! हमें अपनी बाह्य और आंतरिक स्वच्छता और शुचिता को विकसित करना है ! यह बड़ा कठिन कार्य है ! अंदर की दुष्ट प्रवृत्तियों से लड़ना पड़ेगा ! आत्म चिंतन के द्वारा मन से द्वेष, क्रोध, वैर, लालच, घृणा, निन्दा आदि दुर्विचारों को दूर करके इसके स्थान पर सदाचार, शुद्ध व्यवहार और पवित्र विचारों को अंतर्मन में स्थापित करना है ! यही परम कल्याण का मार्ग है !

विवेक विचार से अपने आप को अच्छा बनाने का काम कोई भाग्यवान ही करता है ! परहित के लिए तन, मन, धन का बलिदान करना ही सच्चा धर्म है ! जप एवं सिमरण आत्म-नियंत्रण करने की राम-बाण औषधि है ! श्रेष्ठ-भाव वालों का अंतःकरण शीशे की तरह निर्मल होता है ! मुख कमल की तरह खिला रहता है और वाणी में सदैव मिठास और प्यार होता है ! ऐसी सद्भावना वाले जन ना केवल अपने लिए सुख शांति का सर्जन करते हैं बल्कि आस-पास के लोगों में भी सर्वत्र प्रेम और सद्विचार विकसित करते हैं !

आज नववर्ष की पावन बेला में मैं ईश्वर के आगे यही प्रार्थना है कि हम सब सन्मार्ग पर चलने के अभ्यासी बनें ! हमारे में आस्तिक भाव उदय हों आत्मा जागृत हो, प्रभु के प्रति आस्था और विश्वास सुदृढ़ हो ! हमारी बुद्धि तथा विचारों में निर्मलता और पवित्रता आये और परस्पर शांति एवं स्नेह का संचार हो !

“जगे चेतना विमलतम, हो सत्य सुप्रकाश

शांति सर्व आनंद हो और पाप ताप का नाश ”

इस प्रार्थना के साथ नववर्ष 2019 का अभिनन्दन करते हुए आपको बहुत बधाई एवं शुभ कामना करता हूँ ! हे प्रभु-आपके मार्ग दर्शन के हम सदैव अभिलाषी हैं !

सर्व शक्तिमय राम जी, अखिल विश्व के नाथ ,

शुचिता, सत्य सुविश्वास दे, सिर पर धार कर हाथ !

आपका शुभाकांक्षी !

कृष्ण

कृष्ण

01/01/2019